

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17 (ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला सतना में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सतना, मध्यप्रदेश

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	सेवा संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित हैं.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस. पी. मिश्रा, अधीक्षक, भू-अभिलेख, सतना.	द्वितीय श्रेणी (कार्यपालिक)	सेक्टर क्रमांक 32
2	श्री जी.पी. सोनी, अधीक्षक, भू-अभिलेख, सतना.	द्वितीय श्रेणी (कार्यपालिक)	सेक्टर क्रमांक 41
3	श्री श्याम किशोर दुबे, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, सतना.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	सेक्टर क्रमांक 12 एवं 35
4	श्री इन्द्रभान सिंह चौहान, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, सतना.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	सेक्टर क्रमांक 16 एवं 33
5	श्री शिवमंगलदीन रावत, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, सतना.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	सेक्टर क्रमांक 8 एवं 37

(1)	(2)	(3)	(4)
6	श्री रामदीन विश्वकर्मा, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, सतना.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	सेक्टर क्रमांक 40
7	श्री टी.पी.सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 1,116, 209
8	श्री पी. एस. द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग-2, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 2, 117, 210
9	श्री एस. के. जैन, महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास क्रियान्वयन इकाई क्र.-1 सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 3, 118, 211
10	श्री जी. पी. तिवारी, ई.ई. एस.टी.एम., सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 4, 119, 212
11	श्री प्रमोद गेडाम, सहा. यंत्री, संचार/संधा. म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.,सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 5, 120, 213
12	श्री एन.डी. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, म. प्र. गृ. नि. मं., सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 6, 121, 214
13	श्री एस.एम. त्रिपाठी, सहा. यंत्री, (फील्ड) एन.व्ही. डी.ए. अरपाटन.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 7, 122, 215
14	श्री यू. एस. वाजपेयी, जिला पंजीयक, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 8, 123, 216
15	श्री ए.पी. शुक्ला, संभागीय आयुक्त, वाणिज्य कर, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 9, 124, 217
16	श्री के. के. पाठक, सहा. यंत्री, लो. नि. वि., सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 10, 125, 218
17	श्री एन. के. जैन, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 11, 126, 219
18	श्री आर.वाई. तिवारी, कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यां., सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 12, 127, 220
19	श्री पी. के. श्रीवास्तव, वन परिक्षेत्र अधिकारी परिक्षेत्र मैहर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 13, 128, 221
20	श्री एस. पी. गुप्ता, जिला प्रबंधक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 14, 129, 222
21	श्री अखिलेश तिवारी, सहा. यंत्री परिक्षण /संचार म. प्र. पा. ट्रा. क. लि.,सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 15, 130, 223
22	श्री भीमसेन शर्मा, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 16, 131, 224
23	श्री गिरीश प्रसाद शुक्ल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 17, 132, 225
24	श्री गोपाल शरण सिंह चौहान, प्राचार्य, शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. व्यंकट क्र.-1, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 18, 133, 226
25	श्री शिवगोपाल शुक्ला, सहा. कृषि यंत्री, कृषि यांत्रिक कार्यशाला, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 19, 134, 227
26	श्री शिशिर कुमार शुक्ला, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 20, 135, 228

(1)	(2)	(3)	(4)
27	श्री डी.पी. तिवारी, सहा. यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सोहावल.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 21, 136, 229
28	श्री यू. एस. गठरे, अधी. अभियंता, म. प्र. पा. ट्रा. कं. लि., सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 22, 137, 230
29	श्री सी.एस. मिश्रा, वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त-1, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 23, 138, 231
30	श्री एम.एल. सर्याम, सहा. वाणिज्य कर अधिकारी वृत्त-1, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 24, 139, 232
31	श्री डी.एस. टेकाम, सहा. वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त-1, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 25, 140, 233
32	श्री लालजी शर्मा, परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परि. सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 26, 141, 234
33	श्री के.के. तलैया, सहा. यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.-7, बाणसागर कालोनी, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 27, 142, 235
34	श्री आर.के. खरे, सहा. यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.-7, बाणसागर कालोनी, सतना	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 28, 143, 236
35	श्री जी. पी. प्रजापति, सहायक यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.-1 नागौद.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 29, 144, 237
36	श्री शेखर खरे, जिला खनिज अधिकारी, सतना	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 30, 145, 238
37	श्री बी.एल. कुरील, सहा. भूमि, संरक्षण अधिकारी, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 31, 146, 239
38	श्री आर.एन. सिंह, जिला प्रबंधक, म. प्र. स्टेट एग्री इन्डस्ट्रीज डेव. कार्पो. लि. सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 32, 147, 240
39	श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव, सहा. वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त-2 सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 33, 148, 241
40	श्री जी. के. मिश्रा, सहा. यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मैहर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 34, 149, 242
41	श्री ए. के. अग्रवाल, सहा यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 35, 150, 243
42	श्री के. पी. सिंह, अनु. अधिकारी, पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 36, 151, 244
43	श्री अरविंद गुप्ता, सहा. यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उचेहरा.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 37, 152, 245
44	श्री अनवर खान, सहा. यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मझगवां.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 38, 153, 246
45	श्री दिनेश कुमार उमरैया, जिला समन्वयक (संविदा) जन अभियान परिषद, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 39, 154, 247
46	श्री समीर श्रीवास्तव, सहा. यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 40, 155, 248
47	श्री एस.एस. पंचोली, अनु. अधिकारी पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 41, 156, 249
48	श्री के.के.गुप्ता, सहायक संचालक, हाथकरधा जिला सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 42, 157, 250

(1)	(2)	(3)	(4)
49	श्री पन्नालाल ताम्रकार, सहा. यंत्री, म.प्र.पू.क्षे. वि.वि. लि. कं. सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 43, 158, 251
50	श्री बी. के. अग्रवाल, अनु. अधिकारी पुरवा नहर संभाग क्र.-2, रामपुर बधेलान.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 44, 159, 252
51	श्री जे. पी. अहिरवार, अनु. अधिकारी पुरवा नहर उप संभाग क्र.-2, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 45, 160, 253
52	श्री राजीव कुमार निगम, सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 46, 161, 254
53	श्री बी.एस. तिवारी, अनु. अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मैहर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 47, 162, 255
54	श्री एच.सी. गुप्ता, जिला योजना अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्या. सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 48, 163, 256
55	श्री एम.जे.खान, अनु. अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अमरपाटन.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 49, 164, 257
56	श्री आशुतोष बागरी, सहा. यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. लि. कं. सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 50, 156, 258
57	श्री एस.सी. श्रीवास्तव, सहा. संचालक, मत्स्योद्योग सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 51, 166, 259
58	श्री ए. के. शर्मा, अनु. अधिकारी, वि./यां. लाइट मशीनरी, नलकूप, गेट उप संभाग सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 52, 167, 260
59	श्री व्ही. के. जैन, कार्य. यंत्री, परी./संचा/म.प्र.पा.ट्रा. कं. लि. सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 53, 168, 261
60	श्री के.एस. मुबेल, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 54, 169, 262
61	श्री सी. के. मिश्रा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 55, 170, 263
62	श्री राजेश तिवारी, सहा. कृषि यंत्री, कृषि अभि-यांत्रिकी सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 56, 171, 264
63	श्री के. के. अग्रवाल, प्रबंध संचालक, ग्रा. वि. सहकारी समिति, अमरपाटन.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 57, 172, 265
64	श्री आनंद खरे, सहा. यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मझगवां.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 58, 173, 266
65	श्री बी.एस. परिहार, कार्य. यंत्री, लो. नि. विभाग सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 59, 174, 267
66	श्री पी.सी. निगम, कार्य. यंत्री, परी./संचा./म.प्र.पा.ट्रा. कं. लि. सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 60, 175, 268
67	श्री सुधाकर मणि त्रिपाठी, सहा. जिला आबकारी अधिकारी सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 61, 176, 269
68	श्री सुधाकर सिंह, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 62, 177, 270
69	श्री ए. के. पाठक, सहा. यंत्री, जल संसाधन सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 63, 178, 271
70	श्री एस.एस. दीक्षित, सहा. श्रमायुक्त, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 64, 179, 272

(1)	(2)	(3)	(4)
71	श्री आर. के. बोहरा, सहा. सम्पत्ति प्रबंधक, म. प्र. गृ. नि. मं. सतना.	तृतीय श्रेणी	जोन क्रमांक 65, 180, 273
72	श्री डी.एस. बघेल, सहा. यंत्री लो. नि. विभाग मैहर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 66, 181, 274
73	श्री आर.बी. मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, अमरपाटन.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 67, 182, 275
74	श्री पी.एस. ठाकुर, सहा. यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रामपुर बघे.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 68, 183, 276
75	श्री बाबा साल्वे, महा प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 69, 184, 277
76	श्री आर. के. पटेल, अनु. अधि., जल संसाधन, उप संभाग मैहर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 70, 185, 278
77	श्री आर.एन. वर्मा, सहा. वन संरक्षक, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 71, 186, 279
78	श्री बी.बी.एस. परमार, अनु. अधि. जल संसाधन (सर्वे) उप संभाग सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 72, 187, 280
79	श्री एम.एल. मिश्रा, सहा. यंत्री, लो.नि.वि., नागौद.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 73, 188, 281
80	श्री पी.एल.गोहिया, अपीलीय आयुक्त, वाणिज्य कर सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 74, 189, 282
81	श्री अभिताभ तिवारी, उप संचालक, कृषि, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 75, 190, 283
82	श्री सर्वेश कुमार श्रीवास्तव, कार्य. यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 76, 191, 284
83	श्री अजय कटियार, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. ब्यंकट-2	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 77, 192, 285
84	श्री यू. पी. त्रिपाठी, सहा. प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना.	तृतीय श्रेणी	जोन क्रमांक 78, 193, 286
85	श्री एन.एल. मलावी, सहा. आयुक्त, वाणिज्य कर, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 79, 194, 287
86	श्री हरिशंकर मिश्र, सहा. वन संरक्षक, सतना	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 80, 195, 288
87	श्री अनिल कुमार मिश्र, सहा.संचालक, कृषि, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 81, 196, 289
88	श्री बृजेन्द्र सिंह, महाप्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रा. वि. बैंक, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 82, 197, 290
89	श्री ए.एम. सुन्नी, जिला आपूर्ति अधिकारी, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 83, 198, 291
90	श्री व्ही. के. नागवंशी, कार्य. यंत्री एस.टी.सी., म. प्र. पू.क्षे.वि.लि.कं., सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 84, 199, 292
91	श्री ए. के. तिवारी, कार्यपालन यंत्री, भण्डार म.प्र.पू.क्षे. वि.लि. कं. सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 85, 200, 293
92	श्री एच.एल. रामटेके, वाणिज्यकर अधि., सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 86, 201, 294
93	श्री यू. पी. एस. गहरवार, सहा. वन संरक्षक, नागौद.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 87, 202, 295
94	श्री अरूणेश तिवारी, परि. अधिकारी, बा. वि. परि. रामपुर बघेलान.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 88, 203, 296
95	श्री राजेन्द्र मिश्रा, परि. अधिकारी, बा.वि.परि., रामनगर.	तृतीय श्रेणी	जोन क्रमांक 89, 204, 297
96	श्री विलियम तिकी, सहा. खाद्य प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 90, 205, 298

(1)	(2)	(3)	(4)
97	श्री एन. के. मिश्रा, सहा. यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-9 मैहर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 91, 206, 299
98	श्री एम. के. नायक, सहा. यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-9 मैहर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 92, 207, 300
99	श्री व्ही. के. दुबे, सहा. वन संरक्षक, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 93, 208, 301
100	श्री संतोष सिंह, परियोजना अधि. एकीकृत बाल वि. परि. रामनगर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 94, 302
101	श्री जे. पी. पाण्डेय, सहा. संचालक, कृषि, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 95, 303
102	श्री आर.एन. शर्मा, सहा. यंत्री, लो.नि.वि., सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 96, 304
103	श्री राजीव द्विवेदी, वैज्ञानिक म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 97, 305
104	श्री ए. के. अग्निहोत्री, सहा. यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.-9, मैहर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 98, 306
105	श्री जे.एम. झा, सहा. प्रबंधक, जिला व्या. एवं उ. केन्द्र, सतना.	तृतीय श्रेणी	जोन क्रमांक 99, 307
106	श्री विष्णु कुमार त्रिपाठी, सहा. परि. समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 100, 308
107	श्री व्ही. के. शर्मा, सहा. वाणिज्य कर अधिकारी, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 101, 309
108	श्री सुबोध गर्ग, परि. अधिकारी, बाल विकास परि. मझगावां.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 102, 310
109	श्री संजय उरमलिया, परि. अधिकारी, बाल विकास परि. सोहावल.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 103, 311
110	श्री बी. पी. एस. परिहार, शाखा प्रबंधक, म. प्र. वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक मर्या. कार्पो., सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 104, 312
111	श्री आर. के. सिंह, सहा. प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना.	तृतीय श्रेणी	जोन क्रमांक 105, 313
112	श्री आर. के. भट्ट, सहा. वाणिज्य कर अधिकारी, सतना	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 106, 314
113	श्री एन. के. सिंह, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 107, 315
114	श्री आर.एल. ओसारी, म. प्र. राज्य बीज एवं फार्म वि. निगम, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 108, 316
115	श्री एस.एस. चौरसिया, सहा. यंत्री (फील्ड) एन.व्ही.डी.ए.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 109, 317
116	श्री एस. के. श्रीवास्तव, कार्य. यंत्री, नर्मदा वि. संभाग क्र.-1 नागौद.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 110, 318
117	श्री पी. के. साहू, सहा. यंत्री, म. प्र. राज्य बीज एवं फार्म वि. निगम, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 111, 319
118	श्री यू. एस. पाण्डेय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल, सतना.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 112, 320
119	श्री बी.डी. शर्मा, सहा. संचालक, मत्स्य उद्योग पोड़ी, मैहर.	द्वितीय श्रेणी	जोन क्रमांक 113, 321
120	बी. पी. कोरी, प्राचार्य, आई.टी.आई., सतना.	प्रथम श्रेणी	जोन क्रमांक 114, 322
121	श्री एच.एस. द्विवेदी, सहा. प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना.	तृतीय श्रेणी	जोन क्रमांक 115, 323

## रिजर्व अधिकारीगण

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पद एवं कार्यालय (3)	सेवा संवर्ग का नाम (4)
122	श्री ओ. पी. पंजाबी	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-9, मैहर	प्रथम श्रेणी
123	श्री ललनसिंह	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत/यांत्रिकी, सतना	द्वितीय श्रेणी
124	श्री ए. के. सिंह	उप आयुक्त, सहकारिता, सतना.	प्रथम श्रेणी
125	श्री जय प्रकाश सिंह	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सतना.	प्रथम श्रेणी
126	श्री एस. पी. शुक्ला	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सतना.	प्रथम श्रेणी
127	श्री ए. के. वार	अपर आयकर आयुक्त परिक्षेत्र, सतना.	प्रथम श्रेणी
128	श्री आर. के. सिंह	अपर आयकर आयुक्त परिक्षेत्र, सतना.	प्रथम श्रेणी
129	श्री आर. के. मिश्रा	प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय आयकर आयुक्त, सतना.	प्रथम श्रेणी
130	श्री ए. पी. मिश्रा	सहायक संचालक, उद्यान, सतना.	द्वितीय श्रेणी
131	श्री एस. डी. शर्मा	सहा. प्रबंधक, म. प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, सतना.	द्वितीय श्रेणी